



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 315) पटना, शुक्रवार, 21 मार्च 2014

मुख्य अभियंता का कार्यालय  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश  
24 फरवरी 2014

सं० मु.अ.ल.सिं.अनु-322/2012-408—जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक-2611 दिनांक 06.09.2012 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व० दिलीप कुमार वर्मा, हेल्पर, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के आश्रित पुत्र श्री सन्नी कुमार वर्मा को लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान पेय वेंड पी०बी०-01(5200-20200) ग्रेड०पे० 1900 रुपये में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

(ii) श्री सन्नी कुमार वर्मा पत्र प्राप्ति के 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करने, सम्बंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व० दिलीप कुमार वर्मा, हेल्पर के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने सम्बंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा करा लिया जायेगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र सं०-13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस सम्बंध में श्री सन्नी कुमार वर्मा, को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी

कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री सन्नी कुमार वर्मा की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

(v) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(vi) वित्त विभाग के संकल्प सं० 1964 दिनांक 31.8.2005 एवं संकल्प संख्या 2469 दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

(vii) दहेज नहीं लेने और न देने सम्बंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

(ix) योगदान करने हेतु श्री सन्नी कुमार वर्मा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(x) अपने सम्पूर्ण वेतन से प्रतिमाह 25 प्रतिशत की राशि अपनी माँ एवं अन्य आश्रित सदस्यों को भरण पोषण हेतु देना अनिवार्य होगा।

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 315-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>